



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 06.10.2021

थाना शिवपुर पुलिस क्षेत्र में पेट्रोल पम्प के पास चाय विक्रेता व अन्य को गोली मारने वाले अभियुक्तगण 12 घण्टे के अन्दर पुलिस हिरासत में, अभियुक्तगण के साथ उनको शरण देने वालों सहित कुल 05 नफ़र वांछित गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद।

आज दिनांक 06.10.21 को पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में मु0अ0सं0 533/21 धारा 307/504 भादवि बनाम 04 अज्ञात अभियुक्त थाना शिवपुर की घटना के अनावरण हेतु सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए 12 घण्टे के अन्दर सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रानिक व धरातलीय सर्विलांस से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- अभिषेक सिंह उर्फ गोपू पुत्र ओमप्रकाश सिंह नि0 दशवतपुर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष 2- ऋषि सिंह उर्फ ऋषभ पुत्र सभापत सिंह नि0 चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष 3- अंकुर सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह नि0 दांदुपुर क्राईट्स नगर चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष तथा उक्त अभि0गणों को भागने में मदद करने तथा अपने घर में शरण देने के लिये अभि0गण 4- अमरजीत उर्फ पिन्टू पुत्र स्व. कल्लू यादव नि0 दांदुपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष 5- विकास गुप्ता उर्फ कन्हैया पुत्र हीरालाल गुप्ता नि0 लोढ़ान चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक अभियुक्त राबिन सिंह पुत्र गया सिंह नि0 डोमनपुर थाना कोतवाली भदोही जनपद भदोही घटना के समय से ही फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से टीमे गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। एक टीम उसके मुकाम खास रवाना की गयी है शीघ्र ही इसे भी गिरफ्तार किया जायेगा। अभियुक्तों को शरण देने के अपराध में अभि0गण अमरजीत उर्फ पिन्टू पुत्र स्व. कल्लू यादव नि0 दांदुपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष व विकास गुप्ता उर्फ कन्हैया पुत्र हीरालाल गुप्ता नि0 लोढ़ान चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 216 भादवि की बढोत्तरी की गयी। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 05.10.2021 को वादी श्री महेश प्रसाद यादव व संतोष वर्मा ने अपने पुत्र क्रमशः अजय यादव व सुशील वर्मा पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा अकारण रंगबाजी व दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गयी फायरिंग जिसमें अजय यादव व सुशील वर्मा दोनो मजरूब गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के संबंध में थाना हाजा मु0अ0सं0 533/21 धारा 307/504 भादवि बनाम 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 कालीदीन थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा संपादित की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- अभि0गण द्वारा बताया जा रहा है कि दिनांक 5.10.2021 को समय करीब 20.30 बजे कोलकाता पेट्रोल पंप के पास बियर के ठेके से हमलोगों ने बियर खरीदा और वही पर इस्तेमाल किया। रंगबाजी तथा अपना वर्चस्व व भय व्याप्त करने हेतु हमलोगों ने एक राय होकर फायरिंग करना शुरू कर दिया जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। साहब हमलोगो को ऐसा कार्य करने में सकून मिलता है। इसीलिये हमने ऐसा कृत्य किया। जिसमें कई लोगों को गोलिया लग गयी थी और वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे। हम सभी लोग आपस में मित्र हैं। अक्सर हमलोग एक साथ पीते खाते हैं तथा दबंगई करते हैं। कल शाम अभिषेक सिंह उर्फ गोपू तथा राबिन सिंह पुत्र गया सिंह नि0 डोमनपुर थाना कोतवाली भदोही जनपद भदोही ने अपने अपने असलहा से दहशत फैलाने हेतु फायरिंग की थी और हमलोगों ने आज आ रहे लोगों तथा दुकानदारों को गालियां दी थी। हमें अपने इस कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

- 1- अभिषेक सिंह उर्फ गोपू पुत्र ओमप्रकाश सिंह नि0 दशवतपुर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष
- 2- ऋषि सिंह उर्फ ऋषभ पुत्र सभापत सिंह नि0 चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष
- 3- अंकुर सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह नि0 दांदुपुर क्राईट्स नगर चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष तथा उक्त अभि0गणों को भागने में मदद करने तथा अपने घर में शरण देने के लिये अभि0गण
- 4- अमरजीत उर्फ पिन्टू पुत्र स्व. कल्लू यादव नि0 दांदुपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष
- 5- विकास गुप्ता उर्फ कन्हैया पुत्र हीरालाल गुप्ता नि0 लोढ़ान चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

श्री रत्नेश्वर सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिन्हाल, निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्र (अपराध), उ0नि0 हरिओम प्रताप सिंह, उ0नि0 प्रकाश सिंह, उ0नि0 स्वतंत्र सिंह, उ0नि0 अमरीश राय, उ0नि0 विवेक सिंह, उ0नि0 कालीदीन, हमराही कर्मचारी का0 अजीत कुमार गुप्ता, हे0का0 अवनीश राय, हे0का0 शर्मा लाल, रि0का0 प्रिन्स, म0आ0 ऊर्मिला यादव थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

